

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 2, 1982/चैत्र 12, 1904
No. 60] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 2, 1982/CHAITRA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1982

विषय :—व्यापार संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का मठन ।

सं. 3(1)/80-ई.पी.सी. —दिनांक 30 अप्रैल, 1981 तथा 6 जुलाई, 1981 के
समसंख्यक संकल्प के साथ पठित दिनांक 16 मार्च, 1981 के समसंख्यक संकल्प के
अंतर्गत भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में 13 मार्च, 1981 से व्यापार संबंधी
केन्द्रीय सलाहकार परिषद् को पुनर्गठन किया था ।

2 दिनांक 16 मार्च, 1981 के संकल्प के पैरा 3 को निम्नलिखित रूप में
प्रतिस्थापित किया जाए :—

“3 केन्द्रीय सलाहकार परिषद में 33 सदस्य होंगे जैसा कि संलग्न अनुसूची में दिया गया है। इसकी अध्यक्षता वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री अध्यक्ष के रूप में और उनकी अनुपस्थिति में वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री उपाध्यक्ष के रूप में करेंगे। परिषद् 33 सदस्य 13 मार्च, 1981 से 2 वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।”

3. उपर्युक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में श्रेणी 1 के अर्जित क्रमांक 1 तथा 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नोक्त प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 1. वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री | — | अध्यक्ष |
| 2. वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री | — | उपाध्यक्ष |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, परिषद के सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री का कार्यालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा भारत की सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सार्वजनिक जर्मकोरों के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सी. वेङ्कटरामन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd April, 1982

Subject.—Central Advisory Council on Trade—constitution of.

No. 3(1)/80-E. POL.—Under Resolution of even number dated 16th March, 1981, read with Resolution of even no. dated the 30th April, 1981, and 6th July, 1981, the Government of India in the Ministry of Commerce had re-constituted the Central Advisory Council on Trade w.e.f. 13th March, 1981.

2. Para 3 of the Resolution dated 16th March, 1981, may be substituted as follows :—

“3. The Central Advisory Council will consist of 33 members as shown in the schedule annexed. It will be presided over by the Minister of State of the Ministry of Commerce as Chairman and, in his absence, by the Deputy Minister in the Ministry of Commerce as Vice-Chairman. The members of the Council will hold office for a period of 2 years with effect from 13th March, 1981.”

3. The existing entries at S. No. 1 and 2 under category I in the Schedule annexed to the above mentioned Resolution may be substituted as follows:—

1. Minister of State of the Ministry of Commerce—Chairman.

Deputy Minister in the Ministry of Commerce—Vice-Chairman.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Vice-Chairman, Members of the Council, the Private Secretary and Military Secretary to the President, the Prime Minister's Office, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

C. VENKATARAMAN, Addl. Secy.

